


महानगर टेलिफोन निगम लि०
(भारत सरकार का उद्यम)



Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
(A Government of India Enterprise)

MTNL/SECTT/SE/2023
January 20, 2023

To
The Listing Department,
Bombay Stock Exchange (BSE)
National Stock Exchange (NSE)

Ref: BSE Scrip Code: 500108/ NSE Symbol: MTNL

SUB: COMPLIANCE WITH REGULATION 30 & 47 OF SEBI (LODR), 2015 -
SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT reg

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on 20.01.2023, in the newspaper Financial Express all edition (English Newspaper) and Jansatta Delhi edition (Hindi Newspaper), regarding Notice of Postal Ballot.

Further, in terms of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the aforesaid Notice of Postal Ballot are also uploaded on the website of the Company (<https://mtnl.in/NOTICE%20OF%20POSTAL%20BALLOT%20DTD%2016.01.2023%20OF%20MTNL.pdf>)

Kindly take the same on your records.

Thanking You,
Yours faithfully,

(S.R.SAYAL)
COMPANY SECRETARY

Encl: A/a

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय: महानगर दूरसंचार सदन, 5 वां तल, 9 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 भारत
फोन कार्यालय : 24319020, फैक्स : 24324243

Regd. & Corporate Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003 India
Phone Off.: 24319020 Fax: 24324243

आप हमारे साथ हिन्दी में भी पत्राचार कर सकते हैं।

● RICH VALUATIONS, GLOBAL FACTORS

FPI selling in equities hits over three-month high

The selling coincides with a slide in the equity benchmarks


BHARATH RAJESWARAN
Bengaluru, January 19

FOREIGN INVESTORS (FPIs) offloaded Indian equities worth ₹15,068 crore (\$1.85 billion) in the first half of January, the most since the end of September 2022, data from National Securities Depository Limited showed.

The selling coincided with a slide in equity benchmarks, with Nifty 50 falling nearly 1% between January 1 and 15 this year.

Analysts flagged multiple reasons for the FPI sell-off—expensive valuations due to the recent outperformance of Indian equities over their

FII EQUITY (\$ million)



global peers, reallocation of funds to China and Taiwan for their relatively cheaper valuations, the reopening trade in China and global growth concerns.

In his latest weekly GREED & fear newsletter, Christopher Wood of Jefferies noted that the larger theme in Asia was China and its reopening.

Even if India's demand story remained "rock-solid", he wrote, the high valuations were a "challenge".

The global brokerage firm had cut India's weighting in the Asia Pacific ex-Japan return portfolio by half a percentage point while raising China's weightage by one percentage point.

Among sectors, foreign

investors sold off ₹67.01 billion worth of shares in financials, followed by ₹34.57 billion in IT and ₹28.25 billion in oil & gas consumable fuels.

Metals was the only major sector that saw renewed interest from foreign investors, who bought ₹25.18 billion worth of equities.

China is the world's largest consumer of metals, and the reopening after the lifting of stringent coronavirus restrictions is expected to boost metals demand in India and the world.

Along with the FPI selloff, analysts also point to another factor contributing to market volatility.

"Earnings for the December quarter will add to the market volatility in the near term," said Shrikant Chouhan, head of equity research (retail) at Kotak Securities.

—REUTERS

AU SFB's profit jumps 30% in Q3 as provisions decline

Lender reports improvement in asset quality

FE BUREAU
Mumbai, January 19

AU SMALL FINANCE BANK on Thursday reported a 30% year-on-year increase in its net profit to ₹393 crore for the December quarter. This is the highest-ever quarterly profit, the lender said.


The jump in the profit is on account of a 41% Y-o-Y decline in its provisions to ₹33 crore. The bank's pre-provisioning operating profit was up 21% to ₹556 crore on back of an increase in non-interest income, which was at ₹295 crore, higher by 7% YoY.

The bank's net interest income improved 41% to ₹1,153 crore while the net interest margin dropped 10 basis points to 6.20%.

The lender saw a 14-bps increase in cost of funds to 6%

REPORT CARD

(₹ crore) ■ Q3FY22 ■ Q3FY23 ▲ % change, y-o-y



which will remain a key monetizable going ahead, it said. Deposits grew 38% YoY to ₹61,101 crore as of December 31. The current account, savings account (CASA) ratio dropped to 38%, against 42% a quarter ago.

The improvement in NII was on account of growth in the loan book, which improved

38% to ₹56,335 crore.

The bank's asset quality improved, with gross non performing asset (NPA) ratio declining 9 bps sequentially to 1.81% as on December 31 while net NPA was stable at 0.51%. The capital adequacy ratio stood at 20% as of December 31, against 18.2% a year ago.

Can Fin Homes' net rises 31%

FE BUREAU
Mumbai, January 19

CAN FIN HOMES' net profit rose 31% year-on-year in the December quarter due to a growth in its net interest income. The lender's bottom line stood at ₹151.5 crore, up 7% on quarter.

The home financier's net interest income rose 22.2% y-o-y to ₹251.71 crore in the December quarter. Even as disbursements fell, the outstanding loan book grew 20% y-o-y to ₹30,115 crore.

Provisions for bad loans rose 166.10% y-o-y to ₹14.35 crore. The gross non-performing asset ratio fell to 0.6% as on December 31 from 0.71% a year ago. The net non-performing asset ratio fell to 0.30% as on December 31 from 0.39% a year ago.



'High borrowing costs major challenge to WASH financing'

AJAY RAMANATHAN
Mumbai, January 19

Experts urge the government to introduce capital gains bonds, green finance bonds, interest rate subventions and the creation of a social stock exchange to encourage WASH financing

Health Society (FINISH) showed.

Roychoudhury was a panelist at a workshop on WASH financing on Thursday. The workshop was conducted by non-governmental organisation Sa-Dhan and Financial Inclusion Improves Sanitation and Health (FINISH) Society.

"High interest rate is only resultant of one factor. What we are paying back to the customers from which, money is coming to us. There is a net interest margin. Risk factor is almost negligible when it comes to MFIs. If we are lending at rate A, the final rate of interest quoted to the end user is A+50 bps or A+150 bps. So, the last mile burden is quite high," said Uttam Verma, State Bank of India Deputy General Manager Mumbai Metro Circle.

As an alternative, experts have urged the government to introduce capital gains bonds, green finance bonds, interest rate subventions and the creation of a social stock exchange to encourage WASH financing.

To enhance participation in WASH financing, experts have also suggested creating a sub-target for WASH financing under the RBI's priority sector lending norms.

NON-BANK LENDERS have pegged the prevailing high borrowing costs as the biggest challenge as far as financing water, health and sanitation (WASH) infrastructure is concerned.

Currently, banks and non-bank lenders disburse WASH loans to microfinance institutions that utilise these funds to build health and sanitation infrastructure in remote areas.

"The concession (interest rate) is so low. We get maybe 25-30 basis points from NABARD. We add our own. Even then, it comes to less than 100 basis points. 200 basis points should be the trigger, which would encourage an NBFC to employ a person dedicatedly to finance WASH," said Bonani Roychoudhury, chief operating officer (COO), Nab-samruddhi Finance.

"When it comes to higher concession, NABARD is only borrowing from the market. Being one of the highest borrowers from the market, NABARD's rates are not very low. To promote a sector, there has to be a huge concession," the COO added.

"MFIs are our largest partners in WASH. But what we have faced is that there are not enough players even today. We get a lower interest rate concession (from NABARD) than scheduled commercial banks and regional rural banks get from NABARD but still we are the highest borrowers from NABARD under WASH but we are a very small entity. For us to take more, we need more people to lend to."

Nab-samruddhi Finance is a subsidiary of the National Bank for Agriculture and Rural Development.

Currently, microfinanciers' outstanding book stands at around ₹2.6 trillion, of which sanitation loans are at ₹400 crore, data from Financial Inclusion Improves Sanitation and

ICICI Securities net profit declines 26%

FE BUREAU
Mumbai, January 19

ICICI SECURITIES on Thursday announced its audited consolidated financial results for the quarter ended December 31. The brokerage firm posted the revenue of ₹880 crore, down 7% y-o-y but up 2% from the September quarter.

Net profit came in at ₹281 crore, down 26% since Q3FY21, and down 6% sequentially.

Total client assets came in at ₹6 trillion, a 7% y-o-y rise, while private wealth assets rose 15% y-o-y to ₹3.2 trillion.

Commenting on the results, MD and CEO Vijay Chandok said, "Given the structural shifts taking place like formalisation and equitisation of savings, entry of 100-150 million youth in the job market annually and projected healthy GDP growth over next several years leading to overall rise in affluence level, we believe we have a long runway for growth," he added.



Vijay Chandok, MD and CEO

The firm's total client base stood at 8.7 million, up 25% y-o-y. Total client assets on the platform during the quarter touched ₹6 trillion, of which ₹3.2 trillion pertained to its 76,000-plus private wealth customers, comprising HNIs, UHNIs and family offices.

Retail equity market share was retained at 10.5% while the commodity market share rose 157 bps to 5.6% y-o-y.

Non-banking revenue comprised 64% of overall revenues, compared with 58% in the September quarter.

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice
Tender No : 151/2022-23/KWA/PHC/D2/TVM, & 152/2022-23/KWA/PHC/D1/TVM
JUM (1) Amboori Pt-Water supply line extension & providing water connections from existing and proposed pipelines to households. (2) Road restoration of PWD/NHK/FB roads under JUM-Road restoration work in JUM 2022-2024: CWSS to Pulimth, Nagaror and Karavaram panchayaths, Phase-II-Pipeline Work.
EMD :Rs. 2,00,000/- each. Tender fee : Rs. 13,010/- each. Last Date for submitting Tender : 20-02-2023 03:00pm, Phone : 0471-2322303
Website : www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

Supervising Engineer
P.T. Circle
Thiruvananthapuram

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) CIN: L32101DL1986G0123501
Registered and Corporate Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003. Tel: 011-24319020, Fax: 011-24324243, Website: www.mtnl.net.in / www.bol.net.in

Notice of Postal Ballot is hereby given to the Members of the Company pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 03/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time ("SEBI LODR, 2015") and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any amendments/s), statutory modification(s) and/or re-enactment(s) thereof for the time being in force), that the Resolutions as set out in this notice are proposed for approval by the Members of the Company by means of Postal Ballot only by voting through electronic means ("remote e-voting").

Sl. No.	Description of Resolutions
1.	APPOINTMENT OF SHRI SUNIL KUMAR VERMA, (DIN: 09800644), AS GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR OF THE COMPANY
2.	APPOINTMENT OF SHRI RAJIV KUMAR, (DIN: 09811051), AS DIRECTOR (FINANCE) OF THE COMPANY
3.	APPOINTMENT OF SHRI SHIVENDU GUPTA, (DIN: 09850201), AS GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR OF THE COMPANY

The electronic copies of Postal Ballot Notice ("Notice") along with the Explanatory statement has been dispatched on Wednesday, 18th January, 2023 by CDSL, to those members whose e-mail ids are registered with their Depositories/Depository Participants (in case shares held in electronic form) or with Registrar & Transfer Agent (in case shares held in physical form). The notice is also available on the Members of the Company's website i.e., www.mtnl.net.in, websites of Stock Exchange(s) i.e., www.nseindia.com and www.bseindia.com and website of CDSL. Further, pursuant to MCA circulars, the requirement of sending physical copies of the Notice, Postal Ballot forms have been dispensed with.

In compliance of the provisions of Companies Act and SEBI Regulations and MCA circulars, the Company is pleased to offer remote e-voting facility through the CDSL to all the eligible Members whose names appear in Register of Members or in the list of Beneficial owners as on Friday, 13th January, 2023 ("Cut-off date"). A person who is not member on cut-off date shall treat this notice for information purposes only.

The remote e-voting process will commence on Saturday, 21st January, 2023 (9.00 AM IST) and end on Sunday, 19th February, 2023 (5.00 PM IST). The members shall not be allowed to vote thereafter. Members are requested to refer to the detailed instructions for e-voting forming part of the Postal Ballot notice. If you have any queries or issues regarding attending e-voting from the e-voting system, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free No. 1800 22 55 33.

The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically without any fee to the members from the date of circulation of Notice of AGM up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to mtnlscso@gmail.com mentioning their name, DP ID & Client ID/folio number and Permanent Account Number (PAN).

M/s Hemant Singh & Associates, Company Secretaries will act as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner. The resolution, if approved shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting, i.e., 19.02.2023. The results of Postal Ballot along with Scrutinizer's report will be declared by the Company within stipulated time and will also be displayed on the website of the Company, Stock Exchanges and Service Providers.

Members who have not registered their e-mail address so far, or want to change their e-mail ids, are requested to register/change the same with their Depository Participant/RTA, so as to receive all communications electronically.

For any other queries/grievances, members may contact Shri Punit Mittal, M/s Beetal Computer Services Pvt. Ltd., RTA of the Company, Email: beetalrta@gmail.com, Tel: 011-29961282-83, Fax: 011-29961284.

For & on behalf of Mahanagar Telephone Nigam Ltd.
S.R. Sayal
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 19.01.2023

JFC FINANCE (INDIA) LIMITED						
Reg. Office: P-32, Lower Ground Floor, South Extension, Part-II, New Delhi-110049 CIN: U74899DL1995PLC072767, Email: contact@jfcindia.com						
UN-AUDITED QUARTERLY/ HALF YEARLY FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022						
[Regulation 52 (B), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 SEBI (LODR Regulations)]						
(Rs. in '000 except per share data and ratios)						
Sl. No.	Particulars	Qtr. ending (September 30, 2022) (Unaudited)	Previous Qtr. ended (June 30, 2022) (Unaudited)	Corresponding previous Qtr. ending (September 30, 2021) (Unaudited)	Year to date (September 30, 2022) (Unaudited)	Year Ended (March 31, 2022) (Audited)
1.	Total Income from Operations	14,376	8,533	8,626	22,909	14,154
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	10,487	3,055	(24,651)	13,542	(22,094)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	7,827	2,378	(18,490)	10,206	(31,635)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	7,827	2,378	(18,490)	10,206	(31,635)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,21,870	53,201	852	1,75,071	(12,293)
6.	Paid up Equity Share Capital	1,65,417	1,65,417	1,65,417	1,65,417	1,65,417
7.	Other Equity	-	-	-	-	-
8.	Net worth	7,04,602	6,96,774	5,28,175	-	6,94,396
9.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315
11.	Debt Equity Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic:	2.31	0.70	(5.45)	3.01	(9.33)
	2. Diluted:	1.74	0.53	(4.10)	2.27	(7.02)
13.	Capital Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
14.	Debiture Redemption Reserve	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15.	Debit Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16.	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly un-audited financial results for the quarter/half year ended on 30.09.2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly/half yearly un-audited financial results for the quarter ended on 30.09.2022 are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity (www.jfcindia.com).
- The above financial results were reviewed & recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on Wednesday, January 18, 2023.
- There has been no change in accounting policies followed during the quarter ended 30th September, 2022 as compared to the preceding financial year ended March 31, 2022 and has been prepared in accordance with Regulation 52 of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Statutory Auditors of the Company has done the Limited Review of the financial statements of the Company for the period ended on 30.09.2022.
- The Company is Non-Banking Financial Company and primarily carrying on the business of lending and making investments. All the activities of the Company revolve around the primary business, as limited there are no separate reportable segment as per AS 17 on 'Segment Reporting'.
- Figures for the previous periods / years have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period / years classification / disclosure.

By Order of the Board
For JFC Finance (India) Limited
Sd/-
Vijay Kumar Chopra
Director
DIN: 03462730

Shemaroo Entertainment Limited			
(CIN: L67190MH2005PLC158288)			
Registered Office: Shemaroo House, Plot No. 18, Marol Co-Op, Industrial Estate, Off Andheri - Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059			
Tel: +91 - 22 - 4031 9911 Fax: +91 - 22 - 28519970 E-mail: compliance.officer@shemaroo.com Websites: www.shemaroo.com / www.shemaroent.com			
EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022			
Particulars	Quarter ended		Nine Month ended 31.12.2022 (Unaudited)
	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	
1. Total Income from operations	15,048	9,019	39,529
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	92	204	737
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	92	204	737
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	103	188	490
5. Total Comprehensive Income (after tax)	89	186	428
6. Equity Share Capital (Face Value Rs 10 each)	2,718	2,718	2,718
7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8. Earning Per Share of Rs 10 each (before and after extraordinary items)			
Basic:	0.32	0.69	1.66
Diluted:	0.32	0.69	1.66

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on January 18, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter and half year ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.shemaroent.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively.
- Additional Information on Standalone Financial Results is as below:

Particulars	Quarter ended		Nine Month ended 31.12.2022 (Unaudited)
	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	
Income from operations	14,395	8,593	37,677
Profit before tax	131	193	654
Profit after tax	141	177	407
Total Comprehensive Income (after tax)	141	177	407

By Order of the Board
For Shemaroo Entertainment Limited

Hiren U Gada
CEO
DIN:01108194

Place : Mumbai
Date : January 19, 2023

B Capital closes third growth fund series with \$2.1 billion

SALMAN SH
Bengaluru, January 19

B CAPITAL, a global multi-stage investment firm with investments in India, the US and other Asian markets, on Thursday announced the close of its third venture growth fund and related companion funds ("Growth Fund III"), with an aggregate capital commitments of \$2.1 billion. Together, these funds position B Capital to leverage the firm's growth investing capabilities across the globe, with an emphasis on the US and Asia, the fund said in a statement.



In India, it has led investments into startups like Meesho, MoEngage, BlackBuck, Bizongo and Byju's

ets under management across multiple funds, the firm focuses on seed to late-stage venture growth investments, primarily in the enterprise, financial technology and healthcare sectors. The fund is led by Howard Morgan, Sheila Patel, Eduardo Saverin and Raj Ganguly.

In India, B Capital has led investments into startups such as social commerce firm Meesho, SaaS platform MoEngage,

FUND FACTS

■ To focus on global growth investments, primarily in enterprise, fintech & healthcare tech

■ Multi-stage fund already manages \$6.3 billion in AUM across multiple funds

B2B tech-enabled logistics startup BlackBuck and B2B packaging materials marketplace Bizongo and edtech Byju's.

B Capital's latest fundraise comes at a time when 2023 is expected to be another formidable year for startups even as both global and domestic VCs sit on large amounts of dry powder funds amounting to multiple billion dollars. Although late-stage deal-making is expected to take a huge hit this year, fund managers and partners at domestic VC firms expect 2023 to be a reasonable year for early-stage startups.

"Growth Fund III's portfolio includes companies that are transforming their respective industries and generating meaningful impact. Our strategic partnership with Boston Consulting Group and strong on-the-ground presence in key geographies enable us to provide our portfolio companies with targeted insights and expert advice. This multifaceted, forward-thinking strategy lays a foundation for consistent portfolio company growth and firm success," said Saverin, co-founder, managing partner at B Capital.

The Growth III Fund series close is the latest milestone for B Capital, which most recently announced the closing of its dedicated early-stage fund Ascent Fund II worth \$250 million in July 2022.

Nick Walker named Cairn Oil & Gas CEO

RAJAT MISHRA
New Delhi, January 19



Walker was CEO of Lundin Energy, one of the leading European independent E&P companies

NICK WALKER HAS been appointed the chief executive officer of Vedanta's Cairn Oil & Gas, the country's largest private oil and gas exploration and production company, effective from January 5, 2023. Walker was the president and CEO at Lundin Energy, one of the leading European independent E&P companies. Walker had previously worked with energy majors such as BP, Talisman Energy and Africa Oil.

Vedanta, in a stock exchange filing on January 3, giving out production numbers, stated that its oil and gas production during the October-December quarter was 144,789 barrels per day. According to the release, Walker will be leading all aspects of Cairn's strategy, including development of strategic alliances with global partners to fast-track business delivery. He will drive adoption and deployment of best-in-class oil and gas

technologies and processes, with focus on innovation and digitalisation, for business transformation. Walker will be the sixth CEO of the company since the Anil Agarwal-led group bought the company from Scottish explorer Cairn Energy, now known as Capricorn Energy, in 2011. Walker joins Cairn Oil & Gas after Prachur Sah quit the firm to join Indus Towers (formerly Bharti Infratel) as MD and CEO effective January 3, 2023.

Trebo achieves Ebitda breakeven

SALMAN SH
Bengaluru, January 19



We feel like we are graduating from being a startup to a real business.

SIDHARTH GUPTA, CO-FOUNDER, TREBO

HOTEL AGGREGATOR TREEBO Hotels, announced on Thursday that it achieved Ebitda break-even in December. It also reported an adjusted Ebitda (adjusted for ESOP expenses) of ₹1.65 crore.

The startup also announced that it achieved an annualised revenue run rate (ARR) of \$82 million in the same month — representing a 130% y-o-y growth compared to the \$36-million ARR a year ago.

"This Ebitda break-even is a defining moment in our journey. We feel like we are graduating from being a startup, which is often thought of as a licence to be perpetually loss-making, to a real business. What makes this milestone truly special is that it comes in the backdrop of the devastating pandemic which brought the entire travel industry to its knees," said Sidharth Gupta, co-founder of Trebo.

Gupta added that the com-

pany has consistently operated with "solid" unit economics and has been profitable post all variable and semi-variable expenses for a while now. "That, combined with a culture of strong cost discipline and growing scale, allowed us to hit Ebitda break-even," he said.

360 ONE PORTFOLIO MANAGERS LIMITED
(Formerly known as IIFL Wealth Portfolio Managers Limited)
CIN: U74120MH2011PLC219930
Regd. Office: IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel West, Mumbai 400013, Maharashtra, India. | Tel: (91-22) 4876 5600 | Fax: (91-22) 4646 4706
Email id: secretarial@iiflw.com | Website: www.iiflwealth.com/Wealth-Portfolio-Managers/

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2022

S/N	Particulars	Quarter ended		Year Ended
		Ended December 31, 2022	Ended December 31, 2021	March 31, 2022
1	Total Income from Operations	276.07	380.49	986.01
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	42.83	152.40	166.93
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	42.83	152.40	166.93
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	29.76	114.77	138.06
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	29.95	116.64	139.24
6	Paid up Equity Share Capital	2.49	2.49	2.49
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve and Capital redemption reserve)	NA	NA	2,134.90
8	Securities Premium Account	1,996.00	1,996.00	1,996.00
9	Net worth	2,434.87	2,499.86	2,137.40
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,655.18	-	-
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	1.25	NA	0.43
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	119.29	460.03	553.40
	2. Diluted:	119.29	460.03	553.40
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debt Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL
16	Total Debts To Total Assets Ratio	0.49	-	0.27
17	Debtors Turnover Ratio	0.86	1.39	2.93
18	Net Profit Margin Ratio	10.85	30.66	14.12
19	Debt Service Coverage Ratio	0.03	NIL	0.04
20	Interest Service Coverage Ratio	1.71	7.54	0.32

** Net worth is equal to paid up equity share capital plus reserves less capital redemption reserve.
*** Debt-equity ratio = Total Borrowings / (Equity share capital + Other Equity).

Notes:

- These financial results have been reviewed by the Board of the Company at their meeting held January 18, 2023. The Statutory Auditors have issued limited review report with an unmodified opinion on the financial results for the quarter ended December 31, 2022.
- These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. These financial results have also been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time.
- For the items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com and on the website of the company i.e. www.iiflwealth.com/Wealth-Portfolio-Managers
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter & nine months results are available on the websites of the Stock Exchange on www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. www.iiflwealth.com/Wealth-Portfolio-Managers
- Previous year figures have been regrouped/reclassified to make them comparable with those of current year.

FOR 360 ONE PORTFOLIO MANAGERS LIMITED
Sd/-
Himadri Chatterjee
Whole Time Director
(DIN: 09122104)

Date: January 18, 2023
Place: Mumbai

STERLING & WILSON

STERLING AND WILSON RENEWABLE ENERGY LIMITED
(formerly known as Sterling and Wilson Solar Limited)

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months ended		Year Ended
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	406.96	312.69	1,494.86	1,926.58	5,198.94
2	Net (Loss) for the period / year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(95.14)	(308.22)	(416.45)	(761.22)	(910.16)
3	Net (Loss) for the period / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(95.14)	(308.22)	(416.45)	(761.22)	(910.16)
4	Net (Loss) for the period / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(99.15)	(298.71)	(428.78)	(753.85)	(915.76)
5	Total Comprehensive (Loss) for the period / year (Comprising (Loss) for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(122.19)	(258.15)	(467.06)	(690.49)	(845.60)
6	Paid - up Equity Share Capital (face value of ₹ 1/- each)	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)					897.79
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	1. Basic (in ₹):	(5.34)	(15.65)	(26.31)	(39.65)	(54.21)
	2. Diluted (in ₹):	(5.34)	(15.65)	(26.31)	(39.65)	(54.21)

INFORMATION ON STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months ended		Year ended
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Revenue from Operations	292.56	213.98	1,035.49	1,299.86	3,459.58
2	(Loss) before Tax	(42.46)	(55.08)	(34.88)	(199.50)	(205.42)
3	(Loss) after Tax	(44.99)	(55.31)	(32.27)	(204.32)	(167.52)

Notes:

- The above financial results, as reviewed and recommended by the Audit Committee at its meeting held on January 19, 2023, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on January 19, 2023. The Statutory Auditors of the Company have conducted "Limited Review" of the above financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2022.
- The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Company i.e. www.sterlingandwilsonre.com

For Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
Sd/-
Mr. Khurshed Daruvala
Chairman
DIN: 00216905

Place: Mumbai
Date: January 19, 2023

CIN: L74999MH2017PLC292281
Reg. Office: 9th Floor, Universal Majestic, P. L. Lokhande Marg, Chembur (West), Mumbai - 400043, Maharashtra.
Tel: (91-22) 25485300 | Fax: (91-22) 25485331 | Email: info@sterlingandwilson.com | Website: www.sterlingandwilson.com

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe to securities. Not for release, publication or distribution directly or indirectly, outside India.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Initial public offer of equity shares on the main board of the Stock Exchanges (defined below) in compliance with Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended.



RASHI PERIPHERALS LIMITED

Our Company was incorporated as "Rashi Peripherals Private Limited" at Mumbai, as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated March 15, 1989 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("RoC"). Our Company became a deemed public limited company under Section 43A of the Companies Act, 1956 and the word 'private' was deleted with effect from July 1, 1997, and then the Company once again became a private limited company with effect from October 29, 2001. Subsequently, our Company changed its name and was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on July 29, 2022 and consequently, a fresh certificate of incorporation dated August 4, 2022 was issued by the RoC to our Company under its present name, Rashi Peripherals Limited. For details of changes in the name and the registered office address of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 249 of the Draft Red Herring Prospectus dated January 18, 2023 ("DRHP"), filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on January 19, 2023.

Corporate Identity Number: U30007MH1989PLC051039

Registered and Corporate Office: Aristo House, 5th Floor, Corner of Telli Galli, Andheri (E), Mumbai 400 069, Maharashtra, India
Tel: +91 22 6177 1771/72; **Contact Person:** Hinal Tejas Shah, Company Secretary and Compliance Officer; **Website:** www.rptechindia.com; **E-mail:** investors@rptechindia.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: KRISHNA KUMAR CHOUDHARY, SURESHKUMAR PANSARI, KAPAL SURESH PANSARI, KESHAV KRISHNA KUMAR CHOUDHARY, CHAMAN PANSARI, KRISHNA KUMAR CHOUDHARY (HUF) AND SURESH M PANSARI HUF

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF RASHI PERIPHERALS LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 7,500 MILLION (THE "OFFER"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [•]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRIVATE PLACEMENT OF SUCH NUMBER OF SPECIFIED SECURITIES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 1,500 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE. SUBJECT TO THE OFFER COMPLYING WITH RULE 19(2)(B) OF THE SCRR. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 5 EACH. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], AND THE [•] EDITION OF THE MARATHI DAILY NEWSPAPER [•] (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA WHEREIN THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES" FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS").

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid / Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid / Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the websites of the BRLMs and at the terminals of the Members of the Syndicate, Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs") and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank(s), as applicable.

This Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), and such portion, the "QIB Portion", provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion") in accordance with SEBI ICDR Regulations. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for the domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (the "Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders, out of which (a) one third of such portion shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with an application size of more than ₹ 1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Offer by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account and UPI ID in the case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of their respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 451 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP with the SEBI on January 19, 2023.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and the websites of BRLMs, i.e., JM Financial Limited at www.jmfi.com and ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com. Our Company hereby invites the members of the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of the Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 35 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered, through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 249 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited.

For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, please see "Capital Structure" on page 96 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
		
JM Financial Limited 7 th Floor, Nerogy Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030 E-mail: rplipo.2022@jmfi.com Investor Grievance E-Mail: grievance.tbd@jmfi.co Website: www.jmfi.com Contact person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM00010361	ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: rptech.ip@icicisecurities.com Investor Grievance E-Mail: customercare@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Contact person: Ashik Joisar/Gaurav Mittal SEBI Registration No.: INM00011179	Link Intime India Private Limited C-101, 1 st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai 400 083 Maharashtra, India Tel: + 91 22 4918 6200 E-mail: rptechindia.ip@linkintime.co.in Investor Grievance E-mail: investor.grievance@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Ms. Shanti Gopalakrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For RASHI PERIPHERALS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Hinal Tejas Shah
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: January 19, 2023

RASHI PERIPHERALS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on January 19, 2023. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com and is available on the websites of the BRLMs, i.e., JM Financial Limited at www.jmfi.com and ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section titled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 35 of the DRHP.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

